




सत्यमेव जयते



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 460] नई दिल्ली, शनिवार, प्रवृत्त 29, 1977/कार्तिक 7, 1899

No. 460] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29, 1977/KARTIKA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October 1977

S.O. 739(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a), (b), (c) and (d) of sub section (2) of section 44 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, namely—

1. (1) These Rules may be called Delhi Transport Corporation (Members) Second Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, for rule 4, the following shall be substituted namely—

4 Term of Office—(1) The term of office of the Chairman-cum-General Manager of the Corporation shall be two years from the date of his appointment and he shall be eligible for re-appointment

(2) The term of office of a member, other than the Chairman-cum-General Manager of the Corporation, shall be for a period of three years from the date of his appointment and he shall be eligible for re-appointment

Provided that a person appointed under sub-clause (i) or sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (c) of rule 3 shall cease to be a member of the Corporation if he ceases to be a member of the New Delhi Municipal Committee or the Delhi Metropolitan, or as the case may be, the Delhi Municipal Corporation

[No. TGO(75)/77]

B. B. MAHAJAN, Jt Secy.

नवीन और परिवहन संचालन

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1977

का० प्रा० 739 (अ).—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) तथा उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) द्वितीय संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 में नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

4. कार्यकाल —(1) निगम के अध्यक्ष-एवं-महा प्रबन्धक का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष का होगा और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

(2) निगम के अध्यक्ष एवं महा प्रबन्धक से भिन्न सदस्य का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष का होगा, और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु नियम 3 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (iii) अथवा उपखण्ड (ii) अथवा उपखण्ड (i) के अधीन नियुक्त व्यक्ति निगम का सदस्य नहीं होगा यदि वह नई दिल्ली नगर पालिका समिति या दिल्ली महानगर अथवा यथास्थिति, दिल्ली नगर निगम का सदस्य नहीं रहता।

[सं० टी० जी० प्रो० (75)/77]

बी० बी० महाजन, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977